



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1944 (श10)

(सं० पटना 589) पटना, शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

सं० 27/आरोप-01-28/2020-सा0प्र0-10822

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

30 जून 2022

श्री प्रवीण कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-824/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा वाद संख्या 66003/11-12 दिग्विजय कुमार पाण्डेय बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण (छपरा)/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण छपरा के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-19 के प्रावधान अन्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक-21.10.2014 को सुनवाई के दौरान दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-5496 दिनांक-31.12.2019 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक 6130 दिनांक 25.06.2020 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 11.02.2022 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समीक्षोपरांत इस विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-5407 दिनांक-06.04.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने पत्रांक 1870 दिनांक 12.04.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

3. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार द्वारा राज्य सूचना आयोग के स्तर से पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक तत्परता नहीं दिखायी गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के लघुदण्ड के अंतर्गत **निन्दन की शास्ति** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव श्री प्रवीण कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-824/11, तत्कालीन प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, सारण के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के लघुदण्ड के अंतर्गत **निन्दन (आरोप वर्ष-2014) की शास्ति** अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्रनाथ चौधरी,
सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 589-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>